

TCS/BB/SE/171/2020-21

January 6, 2021

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400051 Symbol - TCS BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai -400001 Scrip Code No. 532540 (BSE)

Dear Sirs,

Sub: Post Buyback Public Announcement for Buyback of Equity Shares

Pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 ("Buyback Regulations"), as amended, the Company has published Post Buyback Public Announcement for the buyback of 5,33,33,333 (Five crore thirty-three lakh thirty-three thousand three hundred and thirty-three) fully paid-up equity shares of face value of ₹1 (Rupee One) each from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on the Record Date (i.e. November 28, 2020), on a proportionate basis, through the Tender Offer route through the Stock Exchange mechanism as prescribed under the Buyback Regulations, at a price of ₹3,000 (Rupees Three thousand only) per Equity Share payable in cash, for an aggregate consideration not exceeding ₹16,000 crore (Rupees Sixteen thousand crore only) excluding transaction costs, applicable taxes, other incidental and related expenses.

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of Post Buyback Public Announcement dated January 5, 2021, published in Financial Express (English), Jansatta (Hindi) and Loksatta (Marathi) on January 6, 2021.

This is for your information and records.

The above information is also being made available on the website of the Company: www.tcs.com.

Thanking you,

Yours faithfully,

For TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

Rajendra Moholkar Company Secretary

Kensa O

Encl: As above

TATA CONSULTANCY SERVICES

FINANCIAL EXPRESS

SPECTRUM POLICY

Telcos miffed with DoT for not being invited for consultation

KIRAN RATHEE New Delhi, January 5

TELECOM OPERATORS ARE miffed with the department of telecommunications (DoT) for not being invited to a key consultation process on framing spectrum policy for the next 10-years.

The DoT will start consultations from January 6 onwards about the roadmap for use of the spectrum during the next 10 years but while tech companies like Google, Facebook, Apple, etc have been invited, the operators have to propose their views through their association COAI. This is a problem since in the past on several crucial issues views of Reliance Jio has differed with those of incumbent operators like Bharti Airtel and Vodafone Idea.

The move by DoT to talk directly with tech firms and not telecom operators, has irked the telcos. The main factor of dis-

HC issues notices to Punjab, Centre on Reliance Jio plea

THE PUNJAB AND Haryana High Court on Tuesday issued notices to the Punjab government and the Centre on a plea filed by Reliance Jio Infocomm, seeking action against "miscreants" damaging its telecom infra-

trust is around the future of E and V bands. While the tech industry supports delicensing and light-touch regulation regime for E and V spectrum bands, the telecom operators are strongly opposing it.

"DoT should have called the operators individually for the consultation as views of a company may be different from what is being given through an association," said an official with one of the telecom operators.

The E and V bands are con-

structure and forcibly closing its stores in the state.

During the ongoing agitation by farmers against three new farm laws enacted by the Centre, over 1,500 mobile towers in Punjab have been damaged. —PTI

sidered optimum for providing mobile broadband backhaul while its utility for 5G services is also evolving. So far, the government has not taken a call around allocation methodology of spectrum in these bands.

The DoT wants to know what changes are required in current allocations, what frequency bands should be considered for IMT/5G and what spectrum allocations should be done in the next 10 years.

SC's green light for Central Vista project

FE BUREAU New Delhi, January 5

THE SUPREME COURT on Tuesday gave nod to the proposed multi-crore Central Vista redevelopment project that covers a three-km stretch from the Rashtrapati Bhavan to India Gate in the heart of the capital.

A three-judge Bench in a

majority 2:1 judgement by justices A.M. Khanwilkar and Dinesh Maheshwari did not find any infirmity in the grant of approval by the Central Vista Committee or the Heritage Conservation Committee. It said the change in land use under the Delhi Development Authority Act in the restricted zone was just and proper, thus the modifications regarding the change in land use in the Master Plan of Delhi stands

confirmed. It also upheld the recommendation of Environmental Clearance by Expert Appraisal Committee and by MoEF, terming it to be "just, proper and in accordance with law including the 2006 Notification." Justice Khanwilkar, writing

the majority opinion, said smog towers and guns towers should be installed at the construction site. It also directed the Environment Ministry to order the setting up of the facilities for future projects in cities with bad air quality. However, Justice Sanjeev

Khanna while agreeing with the majority judgment on the aspect of notice inviting bids for the project said that the land-use change for the project was vitiated and bad in law. He also pointed out that no prior approval was taken from the Heritage Conservation Committee. "The Central Govern-

ment/Authority would put on public domain on the web, intelligible and adequate information along with drawings, layout plans, with explanatory memorandum etc. within seven days," Justice Khanna

'Ready to roll out Covid vaccine within 10 days of emergency use authorisation'

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, January 5

THE HEALTH MINISTRY on Tuesday said it is prepared to roll out Covid-19 vaccine within 10 days from date of emergency use authorisation, which was issued on January 3, but noted that the final decision lies with the government. Addressing a press brief-

ing, Union Health Secretary Rajesh Bhushan said healthcare workers and frontline workers need not register themselves as their database has been populated on to the Co-WIN vaccine delivery management system in a bulk manner.

"Based on the feedback of dry-run, the Health Ministry is ready to introduce Covid-19 vaccine within 10 days from date of emergency use authorisation," he said.

PM: Share of gas in India energy basket to double **FE BUREAU**

Kochi, January 5

PRIME MINISTER NARENDRA Modi on Tuesday said the share of natural gas in India's energy basket will be more than doubled and the nation will be connected with 'one nation one gas grid' to help bring affordable fuel to people and the industry. He said a gasbased economy is a must to achieve self-reliant India.

The Prime Minister, speaking via a video conference at the inauguration of the 450-km long Kochi-Mangaluru Natural Gas Pipeline in Karnataka, said that efforts are on to prepare for the country's future energy needs. To achieve this goal, natural gas and energy resources are being focused.

The pipeline has been built by GAIL (India) and it has a transportation capacity of 12 million metric standard cubic metres per day and will carry natural gas from the liquefied natural gas (LNG) Regasification Terminal at Kochi (Kerala)

to Mangaluru (Dakshina Kannada district, Karnataka). The total cost of the project was about ₹3,000 crore and its construction created over 12 lakh employment.

Prime Minister said the pipeline would become the base of the gas distribution system in many cities and will form the base of the CNG based transport system in these cities. It will also help India in saving thousands of crores of foreign exchange for the country.

He stressed that the pace of work in the connectivity front in the country happening now is never seen before in earlier decades. He further said in the 27 years before 2014, only a 15,000-km natural gas pipeline was built. But right now, work is underway on more than 16,000 km of gas pipeline nationwide which will be complete in the next five-six years.

Modi termed the day an important milestone for both Kerala and Karnataka as the two states are being connected by a natural gas pipeline.

Alphonso — king of mangoes— to arrive late in mkts this yr

FE BUREAU Pune, January 5

ARRIVAL OF ALPHONSO mangoes this year is likely to get delayed by at least a month since the flowering has been hit due to erratic weather conditions in the key producing regions of Maharashtra.

Normally, the mango orchards in Konkan region see flowering happen in full bloom across December. But this time, the prolonged rains that continued till October end in this region and also the delay in winter that is required for the flowers to bloom has hit the mango growers hard,

Bhide, chairman, Konkan Alphonso Mango Growers Association (KAMGA)- a cooperative body of mango growers on Ratna-

"The flowering cycle has been hurt by the long monsoon and this could delay the crop arrivals in the market by over a month, he said.

giri district said.

Bhide pointed out that normally around 20% of the flowering happens in December. "Just 5-6 % of the orchards would have marketready fruits by March. But this time the arrivals are likely to be delayed to late April," he

Usually, the fruit starts hitting the market by early March. But with only 5% of the trees in the

coastal districts

beginning to flower,

ripening of the fruit may

not happen in March Growers said that the flow-

ering is now likely to take place in January since weather has been playing spoilsport the entire month. The Konan region saw cloudy weather and rainy weather, which was followed by a temperature

drop that led to replanting of some of the plants.

The flowering usually gives an indication to growers about the crop quantity and quality which has not happened this time. Ajit Gogate, chairman, Devgad Alphonso Mango Growers Association — another cooperative of mango growers in Devgad taluka said that it will be difficult to make estimates about the total crop production because the flowering has not happened fully yet.

Usually, the fruit starts hitting the market by early March. But with only 5% of the trees in the coastal districts beginning to flower, ripening of the fruit may not happen in March. Alphonso is growing in some 1.5 lakh hectares in the state in regions including Ratnagiri, Sindudurg, Raigad, Palghar and Thane.

Traditionally, the Alphonso season is between March and May. With the onset of the monsoon, consumers stop eating the fruit. During peak season, Alphonso costs around ₹2,000 per dozen in the retail market. Recently, the growers from Konkan had won GI tag for their produce, meaning growers from other regions can't brand their produce as Hapus or Alphonso.

Benami case: I-T quizzes Vadra for second day

THE INCOME TAX department questioned Robert Vadra, for the second consecutive day on Tuesday in connection with its probe against him under the benami assets law, official sources said. Ateam from the Chandigarh

investigation unit of the department, that is handling the probe, was seen going inside Vadra's office in the Sukhdev Vihar area in Delhi around 3 PM. Vadra is married to Congress

leader and Sonia Gandhi's daughter Priyanka Gandhi Vadra.

Officials had said that the

questioning was linked to the purchase of some land parcels by a firm linked to Vadra in Rajasthan's border town of Bikaner in which another central probe agency, the Enforcement Directorate, had filed a money laundering case in 2015.

Vadra's statement was recorded during the four hours that the tax sleuths spent at his premises on Tuesday, sources said. Vadra, 52, alleged that the action of the central probe agencies against him was "consistent" whenever there was an "issue around." —PTI

IL&FS PMLA case: ED attaches assets of Singapore firm

THE ENFORCEMENT DIREC **TORATE** (ED) has attached assets worth ₹452 crore of a Singapore-based"shell"or dubious company in connection with its money laundering probe in the IL&FS alleged payment default crisis, the agency said on Tuesday. The assets, provisionally at-

tached under PMLA provisions are in the form of shares "belonging" to A S Coal Pte Singapore, a shell company owned by British national Jaimin Vyas, the central probe agency said in a statement.

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

Registered Office: 9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai 400 021. Tel: +91 22 6778 9696 Fax: +91 22 6630 3672 Email: investor.relations@tcs.com*; Website: www.tcs.com Corporate Identity No. (CIN): L22210MH1995PLC084781 Compliance Officer: Mr. Rajendra Moholkar, Company Secretary

> POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended from time to time (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated November 19, 2020 (the "Public Announcement") and the letter of offer dated December 10, 2020 (the "**Letter of Offer**"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. BUYBACK

- 1.1. Tata Consultancy Services Limited (the "Company") had announced the Buyback of up to 5,33,33,333 (Five crore thirty-three lakh thirty-three thousand three hundred and thirty-three) fully paid-up equity shares of face value of ₹1 (Rupee One) each ("**Equity Shares**") from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on the Record Date (i.e. November 28, 2020), on a proportionate basis, through the Tender Offer route through the Stock Exchange mechanism, as prescribed under the Buyback Regulations, at a price of ₹3,000 (Rupees Three thousand only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate consideration not exceeding ₹16,000 crore (Rupees Sixteen thousand crore only) excluding transaction costs, applicable taxes, other incidental and related expenses (Offer Size). The Offer Size of the Buyback constitutes 19.96% and 18.11% of aggregate of fully paid-up equity share capital and free reserves as per audited condensed standalone interim financial statements and audited condensed consolidated interim financial statements of the Company, as on September 30, 2020, respectively, which is within the prescribed limit of 25% under the Companies Act, 2013 (the "Act") and represents 1.42% of the total issued and paid-up equity share capital of the Company.
- 1.2 The Company adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular CFD/DCR2/ CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
- 1.3. The Tendering Period for the Buyback Offer opened on Friday, December 18, 2020 and closed on Friday, January 1, 2021.

2. DETAILS OF BUYBACK

- 2.1. 5,33,33,333 (Five crore thirty-three lakh thirty-three thousand three hundred and thirty-three) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹3,000 (Rupees three thousand only) per Equity Share.
- 2.2. The total amount utilized in the Buyback is ₹1,59,99,99,000 (Rupees Fifteen thousand nine hundred ninety-nine crore ninety-nine lakh and ninety-nine thousand only), excluding transaction costs, applicable taxes, other incidental and related expenses.
- 2.3. The Registrar to the Buyback, i.e. Link Intime India Private Limited ("**Registrar**"), considered 1,95,470 valid applications for 14,64,12,991 Equity Shares in response to the Buyback resulting in the subscription of approximately 2.75 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid applications considered by the Registrar, are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid applications	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	80,00,000	1,63,364	61,25,386	76.57%
General Category for all other Equity Shareholders	4,53,33,333	32,106	14,02,87,605	309.46%
Total	5,33,33,333	1,95,470	14,64,12,991	274.52%

2.4. All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of Acceptance/ Rejection will be dispatched by the Registrar to the Buyback to the Eligible Shareholders, on or before January 8, 2021.

- 2.5. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited and NSE Clearing Limited (collectively, "Clearing Corporations") on January 5, 2021. The Clearing Corporations have made direct funds payout to Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buyback. If any Eligible Shareholders' bank account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by Reserve Bank of India/relevant bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned Seller Members for onward transfer to such Eligible Shareholder holding Equity Shares in dematerialized form.
- 2.6. Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat escrow account on January 5, 2021. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to the respective Eligible Shareholders by Clearing Corporations on January 5, 2021. 2.7. The extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares accepted under the Buyback, all of which
- are in dematerialized form, is currently under process and shall be completed on or before January 12, 2021. 2.8. The Company, and its respective directors, accept responsibility for the obligations of the
- Company laid down under the Buyback Regulations.
- 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- 3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Sr. No.	Particulars	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post Buyback (1)	
		No. of Shares	Amount (₹)	No. of Shares	Amount (₹)
1	Authorized Share Capital	460,05,00,000 Equity Shares of ₹1 each	460,05,00,000	460,05,00,000 Equity Shares of ₹1 each	460,05,00,000
		105,02,50,000 Redeemable Preference Shares of ₹1 each	105,02,50,000	105,02,50,000 Redeemable Preference Shares of ₹1 each	105,02,50,000
		Total	565,07,50,000	Total	565,07,50,000
2	Issued, Subscribed and Paid up Share Capital	375,23,84,706 Equity Shares of ₹1 each	375,23,84,706	369,90,51,373 Equity Shares of ₹1 each	369,90,51,373

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

3.2. Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought Back	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Share Capital ⁽¹⁾
1	Tata Sons Private Limited	3,33,25,118	62.48%	0.90%
2	Life Insurance Corporation of India	16,69,456	3.13%	0.05%
3	RBC Emerging Markets Equity Fund	7,69,221	1.44%	0.02%
4	Axis Mutual Fund Trustee Limited A/C Axis Mutual Fund A/C Axis Long term Equity	6,78,191	1.27%	0.02%
- 3	Total	364,41,986	68.33%	0.99%

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

	Pre Buyb (As on the Rec		Post Buyback (1)	
Category of Shareholder	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to post Buyback Equity Share capital
Promoters/ Promoter Companies	270,35,42,000	72.05	267,02,04,298	72.19
Foreign Investors (including Non Resident Indians / FIIs / FPIs / Foreign Nationals / OCBs)	59,98,60,319	15.99	102,88,47,075	
Financial Institutions / Banks / NBFCs and Mutual Funds / Insurance Companies	29,39,12,165	7.83		27.81
Others (Public, Bodies Corporate, Clearing Members, Trust, and HUF)	15,50,70,222	4.13		
Total	375,23,84,706	100.00	369,90,51,373	100.00

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

4. MANAGER TO THE BUYBACK

A JM FINANCIAL **JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy,

Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi. Mumbai – 400025, Maharashtra, India Tel.: +91 22 6630 3030 Fax: +91 22 6630 3330

Contact Person: Ms. Prachee Dhuri Email: tcs.buyback2020@jmfl.com Website: www.jmfl.com SEBI Regn. No.: INM000010361

Corporate Identity Number: L67120MH1986PLC038784

5. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement or any other information advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Tata Consultancy Services Limited

	ard of Directors of Tata Consuit	ancy services clilificed
Sd/-	Sd/-	Sd/-
Rajesh Gopinathan	N. Ganapathy Subramaniam	Rajendra Moholkar
CEO & Managing Director	COO& Executive Director	Company Secretary
(Director Identification	(Director Identification	(Membership Number:
Number (DIN): 06365813)	Number (DIN): 07006215)	A8644)

Date: January 5, 2021

Place: Mumbai

In addition to the Company's contact details provided above, the investors may reach out to the Investor Service Centre of Link Intime India Private Limited for any queries at +91 22 4918 6300 and tcs.buyback2020@linkintime.co.in, details of which are also included at Paragraph 27 of the Letter of Offer.

infoedge

इन्फो एज (इण्डिया) लिमिटेड

CIN: L74899DL1995PLC068021 | पंजीकृत कार्यालयः जीएफ-12ए, 94, मेघदूत भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19

कॉर्पो. कार्यालयः बी-८, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश) टेलीः 0120-3082000; फैक्सः 0120-3082095

वेबसाइटः http://www.infoedge.in/; ई-मेलः investors@naukri.com

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016, समय-समय

पर यथा संशोधित (''नियमावली'') के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी की जा रही है। नियमावली में अन्य बातों

के अलावे आईईपीएफ प्राधिकरण में अप्रदत्त अथवा दावा–रहित लाभांश के आईईपीएफ में अंतरण तथा ऐसी शेयरों के अंतरण का प्रावधान है जिसके लिये लगातार सात

नियमावली में निर्दिष्ट विभिन्न अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए कम्पनी ने उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये उक्त नियमावली के अंतर्गत संबंधित ऐसे शेयरधारको को व्यक्तिगत रूप से भी सूचित कर दिया है जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना नियत है। ऐसे शेयरधारकों के विवरणों को भी कम्पनी की

वेबसाईट अर्थात् www.infoedge.in पर भी अपलोड कर दिया गया है। अतः संबंधित शेयरधारकों से आग्रह है कि यथाशीघ्र अपने दावा-रहित लाभांश का

भौतिक पद्धति में शेयर धारित करने वाले संबंधित शेयरधारकों जिनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है, यह भी ध्यान रखें कि नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) की जगह डुप्लिकेट शेयर जारी करेगी तथा उसे जारी

करने के उपरांत उनके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा वे निष्प्रभावी हो जाएंगे तथा डीमैट पद्धति में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी डिपॉजिटरीज को कॉर्पोरेट कार्रवाई के रूप में इस प्रकार का उपयुक्त निर्देश देगी ताकि डिपॉजिटरीज आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में उक्त

शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि वेबसाईट या कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को नियमावली के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण में शेयरों के अंतरण

कृपया ध्यान रहे कि पहले से अंतरित दावा-रहित अथवा अप्रदत्त लाभांश अथवा ऐसी शेयरों पर उपचियत होने वाले सभी लाभों, यदि कोई हो, सहित आईईपीएफ

प्राधिकरण में कम्पनी द्वारा अंतरित की जा रही शेयरों को शेयरधारक उसकी वेबसाईट अर्थात् http://iepf.gov.in/IEPFA/refund.html पर दी गई प्रक्रिया

का अनुसरण कर आईईपीएफ से वापस प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। पुनः कम्पनी के पास पड़ी दावा–रहित लाभांश का दावा करने अथवा यदि आपको

किसी जानकारी/ स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया हमारे आरटीएः मै. लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा. लि., नॉबल हाइट्स, 1ला तल, प्लॉट एनएच-2, सी-1,

ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, टेली.: 011-41410592, ईमेल: ieps.shares@linkintime.co.in को लिखे

कृपया अपने सभी पत्राचारों में निम्न विवरणों को दें: 1. कंपनी का नाम 2. फोलियो नं. अथवा डीपी तथा क्लाइन्ट आईडी, 3. शेयर धारक का नाम 4. संपर्क

नं. 5. ई–मेल आईडी साथ ही शेयरधारक अपना स्वतः सत्यापित केवाईसी दस्तावेजों जैसे पैन. पते के प्रमाण के रूप में नवीनतम उपयोगिता बिल के साथ निरस्त

एक राष्ट्र-एक गैस ग्रिड पर काम जारी : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 5 जनवरी (भाषा)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऊर्जा क्षेत्र को लेकर अपनी सरकार का खाका देश के समक्ष रखते हुए कहा कि ऊर्जा उपभोग में स्वच्छ प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को दोगूने से अधिक किया जायेगा और पूरे देश को एक गैस पाइपलाइन ग्रिड से जोडा जाएगा ताकि लोगों और उद्योगों को किफायती ईंधन मुहैया कराया जा सके। प्रधानमंत्री ने 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि-मंगलुरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा

कि उनकी सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो, विमानन, जल, डिजिटल और गैस संपर्क पर अभूतपूर्व काम कर रही है। इस पाइपलाइन को तीन हजार करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है।

मोदी ने कहा कि एक तरफ पांच-छह साल में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के नेटवर्क को दोगुना कर करीब 32 हजार किलोमीटर का बनाया जा रहा है, दूसरी ओर गुजरात में सौर व पवन ऊर्जा को मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा संयंत्र पर काम चल रहा है। इनके अलावा आवागमन के इलेक्ट्रिक साधनों के साथ ही जैव ईंधन के विनिर्माण पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये उपाय देश को प्रदुषण फैलाने वाले कोयला और तरल ईंधनों पर उच्च निर्भरता कम करने में मदद करेंगे। अभी देश की कल ऊर्जा जरूरत में 58 फीसद की पूर्ति कोयले से होती है, जबकि पेट्रोलियम व अन्य तरल ईंधन 26 फीसद योगदान देते हैं। देश में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न ऊर्जा संसाधनों में प्राकृतिक गैस की महज छह फीसद और अक्षय ऊर्जा की दो फीसद से भी कम हिस्सेदारी है।

आयकर विभाग ने वाड़ा से दूसरे दिन भी पूछताछ की

नई दिल्ली, 5 जनवरी (भाषा)

आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति विरोधी कानून के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड़ा के खिलाफ जांच के सिलसिले में मंगलवार को उनसे लगातार दुसरे दिन पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

पेशे से कारोबारी 52 वर्षीय वाड़ा ने मंगलवार को फिर कहा कि इस पूछताछ का मकसद किसानों के आंदोलन जैसे देश से जुड़े वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना है। वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति हैं। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग के चंडीगढ जांच इकाई का एक दल दिन में करीब तीन बजे वाड़ा के सुखदेव विहार स्थित कार्यालय पहुंचा और वहां से शाम छह बजे के बाद निकला। आयकर विभाग के दल की ओर से बेनामी संपत्ति लेन-देन (निषेध) कानून के प्रावधानों के तहत सोमवार को भी करीब आठ घंटों तक वाड़ा से पूछताछ की गई थी और उनका बयान दर्ज किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान के बीकानेर में वाड़ा से संबंधित एक कंपनी द्वारा कुछ भूखंड खरीदे जाने के संदर्भ में पूछताछ की गई। इसी मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2015 में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।

उन्होंने कहा कि ऊर्जा संसाधनों में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी अभी के 6.2 फीसद से बढ़ाकर 2030 तक 15 फीसद तक करने का लक्ष्य है। यह अपेक्षाकृत स्वच्छ विकल्प है और इसे पाइपलाइन से ढोया जा सकता है, जिससे वाहनों के माध्यम से होने वाली ढ़लाई में खर्च होने वाले ईंधन की बचत में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही 10 साल की अवधि में गन्ना व अन्य कृषि उत्पादों से तैयार इथेनॉल करीब 20 फीसद पेट्रोल का स्थानापन्न कर देगा। यह ईंधन की जरूरतों की पूर्ति के लिये तेल के आयात पर देश की निर्भरता के साथ ही कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा।

वर्षों अथवा अधिक से लाभांश अप्रदत्त अथवा दावा-रहित रहा है।

शेयरों को अंतरित करने में सक्षम हो सकें।

🛮 अथवा संपर्क करें।

चैक लीफ भी उपलब्ध कराऐं।

तिथि: 5 जनवरी, 2021

स्थानः नोएडा

दावा करें अन्यथा उपयुक्त तिथि में ऐसे शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित कर दिया जायेगा।

के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करने के संदर्भ पर्याप्त सूचना माना जायेगा।

अदालत ने कहा, प्रथमदृष्टया उमर खालिद, ताहिर हुसैन व अन्य ने षड्यंत्र रचे नई दिल्ली, 5 जनवरी (भाषा)।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि यह प्रदर्शित करने के लिए प्रथमदृष्टया उपयुक्त आधार हैं कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता

निदेशक मंडल के आदेश से.

(एम एम जैन)

इन्फो एज (इंडिया) लि. के लिए

एसवीपी-सचिवालयी एवं कंपनी सचिव

उमर खालिद, आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षेद ताहिर हसैन और अन्य ने पिछले वर्ष उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हए दंगों के दौरान षड्यंत्र रचे थे। अदालत ने मामले में पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए यह टिप्पणी की। मुख्य मेटोपोलिटन मजिस्टेट दिनेश कमार ने कहा कि पिछले वर्ष

खालिद के खिलाफ कार्रवाई आगे बढाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अदालत ने कहा कि एक गवाह का बयान यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है कि उस वक्त खालिद, ताहिर हसैन के कथित संपर्क में था।

तमिलनाड मर्कन्टाडल बैंक,

CIN - U65110TN1921PLC001908 जयपुर शाखा शोप नं. 91, प्रथम तल, जोहरी बाजार, जयपुर-302 003, राजस्थान, फोन : 0141 - 2569788 नीलामी विक्रय सुचना

[Rule 8(6) And 9(1) of Security Interest(Enforcement) Rules 2002] प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पटित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गटन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पतियों की नीलामी विक्रय सचना।

फरवरी में खजूरी खास इलाके में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े मामले में

एतद् द्वारा सर्वसाधारण तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओ) और गारंटीकर्ता(ओ)को यह सुचित किया जाता है कि निम्न वर्णित अचल सम्पति आरक्षित ऋणप्रदाता के पक्ष में वंधक है जिसका प्रतीकात्मक कब्जा, तमिलनाड मर्केन्टाइल बैक, जवपुर शाखा के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है और जिसकी नीलामी विक्री तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक (सुरक्षित ऋणदाता) द्वारा 08.02.2021 को "जहां है जैसी है, जो है जैसी है और जो कछ भी है" के आधार पर रु. 59,77,186.85 (रुपये उनसट लाख्न सतहत्तर हजार एक सो छियासी और पिच्चयासी पैस) की वसुली के लिए की जाएगी जो कि 31.12.2020 तक मेसर्स श्री चंद पैरोटेक्स (प्रो. मोहित कुमार राजानी) से 30,98,484/- रुपये तथा मेसर्स श्री चंद जनरल स्टोर (प्रो. अमित कुमार राजानी) से 28,78,702.85 रुपये वकाया है आरक्षित कीमत 44,35,000/- रुपये होगी और जमा धरोहर राशि 4,43,500/- रुपये होगी।

1	मै. श्री चंद पेरोटेक्स, प्रोप. श्री मोहित कुमार राजानी, शॉप नं. 40, जोहरी बाजार, जयपुर - 302 003	कर्जदार/ उपास्कर्ता
2	मै. श्री चंद जनस्त स्टोर, प्रोप. अमित कुमार राजानी, शॉप नं. 160, जोहरी बाजार, जयपुर - 302 003	कर्जदार/ उधारकर्ता
3	श्री मोहित कुमार राजानी, पुत्र- श्री चंद, 2/693, मालवीय नगर, जयपुर - 302 017	मालिक(प्रो)/मोर्गेजर/गारंटर
4	श्री अमित कुमार राजानी, पुत्र- श्री चंद, 2/693, मालवीय नगर, जयपुर - 302 017	मालिक(प्रो)/मोर्गेजर/गारंटर
	स्थायी सम्पतियों का विवर	ण

हिलाना गांव, तहसील-मोजामाबाद, जिला-जयपुर,अरजी नं. 2339, 221, की भूमि पर, 1000 वर्गमीटर परिमापन में एवं 642.50 वर्गमीटर परिमापन मे. फैक्टी बिल्डींग सह गोदाम, जो कि श्री अमित कुमार राजानी और श्री मोहित कुमार राजानी के नाम है। सीमाए: उत्तर - खसरा नं. 221 एवं 2339 के जरिए रास्ता, दक्षिण - संव्य कृषि भूमि, पूर्व - संव्य कृषि भूमि, पश्चिम -संव्य कृषि भूमि

नोट :- उक्त सम्पति मेसर्स श्री चंद पैरोटेक्स तथा मेसर्स श्री चंद जनरल स्टोर दोनों के कर्ज की सुरक्षा के लिए बंधक है।


तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड, जयपुर शाखा, नीलामी का स्थान शोप नं. ९१, प्रथम तल, जोहरी बाजार, जयपुर-302 003, राजस्थान, फान : 0141 - 2569788 पाधिकत अधिकारी मोबाइल नं. 9983933455, 9825120288 नीलामी की दिनाँक और 08.02.2021 अपराह 01.00 बजे समय रु. 44,35,000/- (चौवालिस लाख पैतीस हजार) आरक्षित कीमत

इच्छ्क बोलीदाता /क्रेता को आरक्षित धनराशि का 10 प्रतिशत डिमांड ड्राफ्ट जो की तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड, जयपुर शाखा के पक्ष में देय हो 08.02.2021 के अपराह 12.30 बजे से पहले जमा करना होगा, विक्री के नियम एवं शतों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट(www.tmb.in) देखी।

विनांक : 05.01.2021 अहमदाबाद क्षेत्र, जयपुर शास्त्रा के लिए

प्राधिकृत अधिकारी स्थान : जयपुर तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED



POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended from time to time (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated November 19, 2020 (the "Public Announcement") and the letter of offer dated December 10, 2020 (the "**Letter of Offer**"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. BUYBACK

- 1.1. Tata Consultancy Services Limited (the "Company") had announced the Buyback of up to 5,33,33,333 (Five crore thirty-three lakh thirty-three thousand three hundred and thirty-three) fully paid-up equity shares of face value of ₹1 (Rupee One) each ("Equity Shares") from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on the Record Date (i.e. November 28, 2020), on a proportionate basis, through the Tender Offer route through the Stock Exchange mechanism, as prescribed under the Buyback Regulations, at a price of ₹3,000 (Rupees Three thousand only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate consideration not exceeding ₹16,000 crore (Rupees Sixteen thousand crore only) excluding transaction costs, applicable taxes, other incidental and related expenses (Offer Size). The Offer Size of the Buyback constitutes 19.96% and 18.11% of aggregate of fully paid-up equity share capital and free reserves as per audited condensed standalone interim financial statements and audited condensed consolidated interim financial statements of the Company, as on September 30, 2020, respectively, which is within the prescribed limit of 25% under the Companies Act, 2013 (the "Act") and represents 1.42% of the total issued and paid-up equity share capital of the Company.
- 1.2 The Company adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular CFD/DCR2/ CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
- 1.3. The Tendering Period for the Buyback Offer opened on Friday, December 18, 2020 and closed on Friday, January 1, 2021.

2. DETAILS OF BUYBACK

- 2.1. 5,33,33,333 (Five crore thirty-three lakh thirty-three thousand three hundred and thirty-three) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹3,000 (Rupees three thousand only) per Equity Share.
- 2.2. The total amount utilized in the Buyback is ₹1,59,99,99,000 (Rupees Fifteen thousand nine hundred ninety-nine crore ninety-nine lakh and ninety-nine thousand only), excluding transaction costs, applicable taxes, other incidental and related expenses.
- 2.3. The Registrar to the Buyback, i.e. Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered 1,95,470 valid applications for 14,64,12,991 Equity Shares in response to the Buyback resulting in the subscription of approximately 2.75 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid applications considered by the Registrar, are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid applications	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	80,00,000	1,63,364	61,25,386	76.57%
General Category for all other Equity Shareholders	4,53,33,333	32,106	14,02,87,605	309.46%
Total	5,33,33,333	1,95,470	14,64,12,991	274.52%

2.4. All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of Acceptance/ Rejection will be dispatched by the Registrar to the Buyback to the Eligible Shareholders, on or before January 8, 2021.

- 2.5. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited and NSE Clearing Limited (collectively, "Clearing Corporations") on January 5, 2021. The Clearing Corporations have made direct funds payout to Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buyback. If any Eligible Shareholders' bank account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by Reserve Bank of India/relevant bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned Seller Members for onward transfer to such Eligible Shareholder holding Equity Shares in dematerialized form.
- 2.6. Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat escrow account on January 5, 2021. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to the respective Eligible Shareholders by Clearing Corporations on January 5, 2021.
- 2.7. The extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares accepted under the Buyback, all of which are in dematerialized form, is currently under process and shall be completed on or before January 12, 2021.
- 2.8. The Company, and its respective directors, accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Sr. No.	Particulars		uyback Record Date)		
		No. of Shares	Amount (₹)	No. of Shares	Amount (₹)
1	Authorized	460,05,00,000	460,05,00,000	460,05,00,000	460,05,00,000
	Share	Equity Shares		Equity Shares	
	Capital	of₹1 each		of₹1 each	
		105,02,50,000	105,02,50,000	105,02,50,000	105,02,50,000
		Redeemable		Redeemable	
		Preference		Preference	
		Shares of ₹1		Shares of ₹1	
		each		each	
		Total	565,07,50,000	Total	565,07,50,000
2	Issued,	375,23,84,706		369,90,51,373	
	Subscribed	Equity Shares	375,23,84,706	Equity Shares	369,90,51,373
	and Paid	of ₹1 each		of₹1 each	
	up Share				
	Capital	ė a			

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

3.2. Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought Back	Equity Shares accepted as a % of total Pos Buyback Shar Capital ⁽¹⁾
1	Tata Sons Private Limited	3,33,25,118	62.48%	0.90%
2	Life Insurance Corporation of India	16,69,456	3.13%	0.05%
3	RBC Emerging Markets Equity Fund	7,69,221	1.44%	0.02%
4	Axis Mutual Fund Trustee Limited A/C Axis Mutual Fund A/C Axis Long term Equity	6,78,191	1.27%	0.02%
	Total	364,41,986	68.33%	0.99%

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre and post Ruyback, is as under-

	Pre Buyb (As on the Rec		Post Buyback (1)	
Category of Shareholder	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to pos Buyback Equity Share capital
Promoters/ Promoter Companies	270,35,42,000	72.05	267,02,04,298	72.19
Foreign Investors (including Non Resident Indians / FIIs / FPIs / Foreign Nationals / OCBs)	59,98,60,319	15.99		
Financial Institutions / Banks / NBFCs and Mutual Funds / Insurance Companies	29,39,12,165	7.83	102,88,47,075	27.81
Others (Public, Bodies Corporate, Clearing Members, Trust, and HUF)	15,50,70,222	4.13		
Total	375,23,84,706	100.00	369,90,51,373	100.00

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

4. MANAGER TO THE BUYBACK

A JM FINANCIAL **JM Financial Limited** 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400025, Maharashtra, India Tel.: +91 22 6630 3030 Fax: +91 22 6630 3330 Contact Person: Ms. Prachee Dhuri Email: tcs.buyback2020@jmfl.com Website: www.jmfl.com SEBI Regn. No.: INM000010361

Corporate Identity Number: L67120MH1986PLC038784

5. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement or any other information advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Tata Consultancy Services Limited

- and c	in belian of the bo	data of Directors of Tata Consult	ancy services chilited
	Sd/-	Sd/-	Sd/-
Raje	sh Gopinathan	N. Ganapathy Subramaniam	Rajendra Moholkar
CEO & N	Managing Director	COO& Executive Director	Company Secretary
(Direc	tor Identification	(Director Identification	(Membership Number:
Numbe	r (DIN): 06365813)	Number (DIN): 07006215)	A8644)

Date: January 5, 2021

Place: Mumbai

In addition to the Company's contact details provided above, the investors may reach out to the Investor Service Centre of Link Intime India Private Limited for any gueries at +91 22 4918 6300 and tcs.buyback2020@linkintime.co.in, details of which are also included at Paragraph 27 of the Letter of Offer.

मध्य प्रदेशात १५५

कावळयांना लागण

इंदूर : मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे

१५५ कावळे मृतावस्थेत आढळले

असून त्यांना एच ५ एन८ बर्ड फ्लूची

सांगितले. तथापि, अन्य कोणत्याही

भोपाळमधील प्रयोगशाळेतुन देण्यात

आल्यानंतर कारवाईला सुरुवात

झाली. अलापुझ्झा जिल्ह्यातील

नेदुमुदी, थाकाझी, पल्लीपाड आणि

करुवत्ता या चार पंचायतींमध्ये ही

कत्तल केली जात असून हे काम

डोनेशन नाही..!

प्रजातीच्या पक्ष्यांमध्ये एच ५एन८

विषाणू आढळला नाही.

लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे,

असे मंगळवारी अधिकाऱ्यांनी

बर्ड फ्लू रोखण्यासाठी

केरळमध्ये कोंबड्यांची कत्तल

पीटीआय, तिरुअनंतपूरम

एच५एन८ बर्ड फ्लूचा प्रसार

जिल्ह्यांमधील काही भागांमध्ये

मंगळवारपासून कोंबड्या आणि

बदकांची कत्तल सुरू करण्यात आली

आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कृती दलाने बदके, कोंबड्या आणि

अन्य घरगुती पक्षी यांची कत्तल सुरू

केली आहे. अलापुझ्झा आणि

या दोन जिल्ह्यांमध्ये बर्ड फ्लूची

अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

डोनेशन नाही..!

प्रशासनाने स्थापन केलेल्या शीघ्र

केरळच्या दोन

रोखण्यासाठी

मॉडर्ना लशीस इस्रायलची मान्यता

जेरूसलेम: अमेरिकेतील मॉडर्ना या जैवतंत्रज्ञान कंपनीच्या कोविड १९ प्रतिबंधक लशीस मान्यता दिल्याचे इस्रायलने स्पष्ट केले आहे. मॉडर्ना कंपनीने मंगळवारी म्हटले होते की, इस्रायलच्या आरोग्य मंत्रालयाने आमच्या लशीच्या वापरास परवानगी दिली असुन या महिन्यात साठ लाख मात्रा इस्त्रायलला देण्यात येतील. देशात तिसरी राष्ट्रीय टाळेबंदी चालू असून इस्रायलमध्ये एकूण ४ लाख ५० हजार रुग्ण आहेत.

अंदमान-निकोबारमध्ये

शून्य रुग्ण पोर्ट ब्लेअर: गेले काही महिने करोनाचे रुग्ण वाढत असताना आता

बरे होऊन घरी गेले आहेत.

आहेत.

आतापर्यंत ४८४८ लोक बरे झाले

नवी दिल्ली : भारत बायोटेक

कंपनीच्या कोव्हॅक्सिन लशीला मंजुरी

देताना तज्ज्ञ समितीने ऐन वेळी निर्णय

बदलला असल्याचे त्या समितीच्या

बैठकतिलि इतिवृत्तातून दिसून आले

भारत बायोटेकच्या स्वदेशी

तिसऱ्या

चाचण्यांविनाच मंजुरी देण्यात आली

असून त्यावर काँग्रेसने टीका केली

होती. गेल्या आठवड्यात तज्ज्ञ

समितीने कोव्हॅक्सिन लशीबाबतचा

निर्णय चोवीस तासांत अचानक

बदलून या लशीच्या मंजुरीसाठी

टप्प्यातील

अंदमान निकोबार बेटांवर करोना रुग्णांची संख्या शून्यावर आली आहे. गेल्या चोवीस तासांत तेथे एकही रुग्ण सापडला नाही, अशी माहिती आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. अंदमान व निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशात ४९४८ रुग्ण असून ६२ बळी गेले आहेत पण गेल्या २४ तासांत एकही नवीन रुग्ण सापडलेला नाही, सोमवारी दोन रुग्ण

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

भारतात दैनंदिन करोना रुग्णांची संख्या वेगाने कमी होत असून गेल्या २४ तासांत १६ हजार ७३५ रुग्ण सापडले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांतील हा सर्वात कमी आकडा असून आतापर्यंत नोंदल्या गेलेल्या एकूण रुग्णांची संख्या १ कोटी ३ लाख ५६ हजार ८४४ आहे, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

देशात मृतांची संख्या १ लाख ४९ हजार ८५० असून २०१ नवीन मृत्यू झाले आहेत. बरे झालेल्यांची संख्या ९९ लाख ७५ हजार ९५८ असून बरे होण्याचा राष्ट्रीय दर हा ९६.३२ टक्के झाला आहे. मृत्युदर आता १.४५ टक्के इतका खाली आला आहे. उपचार घेत असलेल्या कोविड १९ रुग्णांची संख्या लागोपाठ पाचव्या दिवशी ३ लाखांच्या खाली आली असून लागोपाठ पंधरा दिवस हा क्रम चाल् आहे. देशात २ लाख ३१ हजार ३६ इतके रुग्ण उपचार घेत असून ते प्रमाण एकूण रुग्णात २.२३ टक्के आहे.

भारतात कोविड १९ रुग्णांची संख्या ७ ऑगस्टला २० लाख, २३ ऑगस्टला ३० लाख, ५ सप्टेंबरला

औषध महानियंत्रकांना शिफारस

केली असे सचित होत आहे. मानवी

पातळीवरील चाचण्यांच्या मदतीने

लशीची परिणामकारकता सिद्ध

केलेली नसतानाच लशीला मंजुरी

देण्यात आली. १ व २ जानेवारीला

तज्ज्ञ समितीची जी बैठक झाली होती

म्हटले आहे की, हैदराबाद येथील

कंपनीच्या प्रस्तावाधारे लशीला

नैदानिक चाचणी अवस्थेत मर्यादित

वापरासाठी परवानगी देण्यात येत

आहे. नवीन करोना विषाणुच्या

२ जानेवारीच्या इतिवृत्तात असे

त्यातून हे सूचित झाले आहे.

कोव्हॅक्सिन मंजुरीसाठी ऐनवेळी निर्णयात बदल?

नवकरोनाचे आणखी वीस रूग्ण

नवी दिल्ली : ब्रिटनमधील सार्स सीओव्ही २ या विषाणूच्या नवप्रकाराचे आणखी वीस रुग्ण भारतात आढळून आले आहेत. त्यामुळे नवकरोना रुग्णांची संख्या आता देशात ५८ झाली आहे. यातील वीसही रुग्ण हे पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणूविज्ञान संस्थेने केलेल्या



देशातील देनंदिन करोनारूगांत घट

करोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांची संख्या आता एकूण ५८ झाली आहे. या सर्व रुग्णांना आरोग्य केंद्रातील विलगीकरण केंद्रात ठेवण्यात आले असून त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींना वेगळे ठेवण्यात येत आहे. इतर काही नमुन्यांचे जनुकीय क्रमनिर्धारण सुरू असून इन्साकॉन प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. ब्रिटनमधील विषाणू हा एनसीडीसीकडील ८, आयजीआयबीच्या ११, एनआयबीएमजीच्या १, एनआयव्हीच्या २५ , सीसीएमबीच्या ३, निमहंसच्या दहा नमुन्यांत आढळून

४० लाख, १६ सप्टेंबरला ५० लाख, २८ सप्टेंबरला ६० लाख, ११ ऑक्टोबरला ७० लाख, २० नोव्हेंबरला ९० लाख, १९ डिसेंबरला कोटीच्या आयसीएमआरने दिलेल्या माहितीनुसार ४ जानेवारी अखेर १७,६५,३१,९९७ जणांचे नमुने तपासण्यात आले आहेत. सोमवारी एकूण ८ लाख ९६ हजार २३६ नमुने तपासण्यात आले. २०१ नवीन मृतांत

संदर्भात काही रुग्ण असतील, तर

त्यावर ही लस वापरता येईल असे

कंपनीच्या प्रस्तावात म्हटले होते.

नंतरच्या इतिवृत्तात असे म्हटले आहे

की, मानवेतर प्राण्यांमध्ये लस सुरक्षित

व परिणामकारक असल्याचे कंपनीने

दाखवन दिले आहे. ही होल

व्हिरियॉनचा वाहक म्हणून वापर

केलेली करोना प्रतिबंधक लस आहे.

ती उत्परिवर्तित करोना विषाणूवर मात

करू शकते. त्यामुळे या लशीला

मर्यादित वापरासाठी मान्यता देण्यात

येत असून कंपनीने तिसऱ्या टप्प्यातील

चाचण्या तातडीने कराव्यात. लशीला

महाराष्ट्र २९, पश्चिम बंगाल २५, पंजाब २४, केरळ १९, दिल्ली व छत्तीसगड प्रत्येकी १२ या प्रमाणे रुग्ण आहेत. देशात आतापर्यंत १ लाख ४९ हजार ८५० बळी गेले आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील ४९६९५, तमिळनाडू १२१६६, कर्नाटक १२११०, दिल्ली १०५९७, पश्चिम बंगाल ९८१७, उत्तर प्रदेश ८४१३, आंध्र प्रदेश ७११८, पंजाब ५४००, या प्रमाणे संख्या आहे.

मंजुरी मागताना भारत बायोटेकने

सुधारित माहिती व स्पष्टीकरण दिले

आहे, असे इतिवृत्तात म्हटले आहे. ही

माहिती काय होती हे स्पष्ट करण्यात

आलेले नाही. भारत बायोटेकचे

अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

डॉ. कृष्णा इल्ला यांनी 'दी इंडियन

्एक्स्प्रेस'ला सोमवारी सांगितले की,

आम्ही हंगामी माहिती सादर केलेली

नाही. जे आम्ही केले त्याची पूर्ण

माहिती दिली असन आमच्या लशीने

मोठ्या प्रमाणात प्रतिपिंड तयार

झाल्याचे दिसून आले असून तीच

माहिती दिली आहे.

ब्रिटनमध्ये देशव्यापी टाळेबंदी

एपी, लंडन

ब्रिटनमधील नवकरोनाचा झपाट्याने होत असलेला प्रसार रोखण्यासाठी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी किमान १५ फेब्रुवारीपर्यंत देशव्यापी टाळेबंदीची घोषणा केली आहे.

देशाच्या प्रत्येक भागात नवकरोनाची वेगाने लागण होत असल्याने देशात सध्या गंभीर स्थिती आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले. शक्य तितक्या लवकर नवे निर्बंध जारी केले जाणार असन प्राथमिक माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये बंद ठेवण्यात येणार आहेत. तर विद्यापीठातील विद्यार्थीही किमान १५ फेब्रुवारीपर्यंत परतणार नाहीत.

अत्यावश्यक नसलेली सर्व दुकाने, केशकर्तनालयेही बंद राहणार असून उपाहारगृहांना केवळ पार्सल सेवा सुरू ठेवण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. सोमवारी हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार इंग्लंडमधील रुग्णालयांमध्ये २६ हजार, ६२६ नवकरोनाची लागण झालेले रुग्ण आहेत. गेल्या आठवड्यातील

Course Duration

4 Days

((ONLINE))

web.: www.idemi.org

email: training@idemi.org



जर्मनीमध्येही टाळेबंदीला मुदतवाढीची तयारी

करोनामुळे आणखी ९४४ जणांचा मृत्यू झाल्याने चान्सलर ॲन्जेला मर्केल आणि ढेशातील १६ राज्यांचे गट्हर्नर या महिनाअखेरपर्यंत टाळेबंदीला मुदतवाढ देण्याची शक्यत आहे. मर्केल यांनी किती दिवस मुदतवाढ द्यावी आणि

आकडेवारीपेक्षा ही वाढ ३० टक्के अधिक आहे.

कोट्टायम जिल्ह्यातील बाधित क्षेत्राच्या एक कि.मी. परिसरात सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही बर्लिन : जर्मनीमध्ये मंगळवारी कत्तल केली जात आहे, असेही

मंगळवारी राज्यांच्या गव्हर्नरशी चर्चा केली. १० जानेवारीनंतर टाळेबंदीला शाळा सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली



लागण झाली असल्याचा अहवाल बुधवारी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. इथापे कॉलेज ऑफ फार्मसी,संगमनेर

इथापे हॉस्पिटल नवीन नगर रोड, संगमनेर,जि.अ.नगर 422605 मो.नं. 7588004890 / 9767102212 / 9370071777 / 9822791484

DTE CODE: 5297, 5482

(Approved By AICTE / PCI / DTE / MSBTE)

प्रवेश सुचना

प्रथम वर्ष डी फार्मसी 2020-21

डी फार्मसीच्या प्रथम वर्ष संस्था स्तरावरील कोटा प्रवेशाकरिता व कॅप राउंड नंतर रिकाम्या राहणाऱ्या जागांसाठी कॉलेज स्तरावरील प्रवेशाकरिता पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी त्वरित संपर्क साधावा.

अध्यक्ष / प्राचार्य

संगमनेर मेडिकल फौउंडेशन ॲण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, संगमनेर

नंदुरबार नगरपरिषद, नंदुरबार, जि.नंदुरबार

ई-निविदा सुचना क्रमांक ४ सन २०२०-२१

Organised by IDEMI Mumbai Ministry of MSME Govt. of India जा.क.नंनप/आस्था/विद्युत/२७५६/२०२१ विद्युत विभाग ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATION INFRASTRUCTURE & TECHNOLOGY Date: 9,10,16 & 17 Jan 2021 Time: 1.30 PM To 6.00 PM After completion Govt. Certificate will be issued Fees: 5000+18% GST in the name of IDEMI, Mumbai Mobile: 8806614948 / 8600869044 / 7020016225

मुख्याधिकारी, नंदुरबार नगर परिषद, नंदुरबार हे विद्युत कामाकरिता ई-निविदा प्रणालीद्वारे (ऑनलाईन) म्द्रतीने महाराष्ट्र शासनाचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे विद्युत विभागाकडे अथवा महाउर्जा नाशिक यांचेकडे नोंदणीकृत असलेल्या योग्य त्या वर्गातील पात्र ठेकेदारांकडून निविदा मागवित आहेत. निविदाचा तपशिल तपशिल निविदा प्रकाशित करणे ०५/०१/२०२१ साय. ०४.०० वाजता निविदा डाऊनलोड करणे ०५/०१/२०२१ सायं. ०४.०० ते २९/१/२०२१ पर्यंत निविदा तयार व सादर करणे ०६/०१/२०२१ ते २९/१/२०२१ पर्यंत ऑनलाईन तांत्रिक व आर्थिक निविदा बंद करणे २९/०१/२०२१ सायं. ०५.०० वाजेपर्यंत

तांत्रिक लिफाफा उघडणे ३०/०१/२०२९ सकाळी ९९.०० वाजता ०१/०२/२०२१ सायं. ०४.०० वाजता निविदा संदर्भात अधिक माहितीसाठी कृपया www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. दिपक प्रभाकर दिधे सौ.रत्ना चंद्रकांत रघुवंशी रविंद्र अशोक पवार रभापती, सार्व,बांधकाम समिती राजेंद्र शिंदे श्यामकुमार करंजे

नगर परिषद

नंदुर बार

TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED



Registered Office: 9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point, Mumbai 400 021. Tel: +91 22 6778 9696 Fax: +91 22 6630 3672 Email: investor.relations@tcs.com*; Website: www.tcs.com Corporate Identity No. (CIN): L22210MH1995PLC084781 Compliance Officer: Mr. Rajendra Moholkar, Company Secretary

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended from time to time (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated November 19, 2020 (the "Public Announcement") and the letter of offer dated December 10, 2020 (the "Letter of Offer"). The terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1. BUYBACK

- 1.1. Tata Consultancy Services Limited (the "Company") had announced the Buyback of up to 5,33,33,333 (Five crore thirty-three lakh thirty-three thousand three hundred and thirty-three) fully paid-up equity shares of face value of ₹1 (Rupee One) each ("Equity Shares") from the existing shareholders/beneficial owners of Equity Shares as on the Record Date (i.e. November 28, 2020), on a proportionate basis, through the Tender Offer route through the Stock Exchange mechanism, as prescribed under the Buyback Regulations, at a price of ₹3,000 (Rupees Three thousand only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate consideration not exceeding ₹16,000 crore (Rupees Sixteen thousand crore only) excluding transaction costs, applicable taxes, other incidental and related expenses (Offer Size). The Offer Size of the Buyback constitutes 19.96% and 18.11% of aggregate of fully paid-up equity share capital and free reserves as per audited condensed standalone interim financial statements and audited condensed consolidated interim financial statements of the Company, as on September 30, 2020, respectively, which is within the prescribed limit of 25% under the Companies Act, 2013 (the "Act") and represents 1.42% of the total issued and paid-up equity share capital of the Company.
- 1.2 The Company adopted Tender Offer route for the purpose of Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular CFD/DCR2/ CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, including any amendments or statutory modifications for the time being in force.
- 1.3. The Tendering Period for the Buyback Offer opened on Friday, December 18, 2020 and closed on Friday, January 1, 2021.

2. DETAILS OF BUYBACK

- 2.1. 5,33,33,333 (Five crore thirty-three lakh thirty-three thousand three hundred and thirty-three) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of ₹3,000 (Rupees three thousand only) per Equity Share.
- 2.2. The total amount utilized in the Buyback is ₹1,59,99,99,000 (Rupees Fifteen thousand nine hundred ninety-nine crore ninety-nine lakh and ninety-nine thousand only), excluding transaction costs, applicable taxes, other incidental and related expenses.
- 2.3. The Registrar to the Buyback, i.e. Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered 1,95,470 valid applications for 14,64,12,991 Equity Shares in response to the Buyback resulting in the subscription of approximately 2.75 times the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid applications considered by the Registrar, are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid applications	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved category for Small Shareholders	80,00,000	1,63,364	61,25,386	76.57%
General Category for all other Equity Shareholders	4,53,33,333	32,106	14,02,87,605	309.46%
Total	5,33,33,333	1,95,470	14,64,12,991	274.52%

2.4. All valid applications were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of Acceptance/ Rejection will be dispatched by the Registrar to the Buyback to the Eligible Shareholders, on or before January 8, 2021.

- 2.5. The settlement of all valid bids was completed by Indian Clearing Corporation Limited and NSE Clearing Limited (collectively, "Clearing Corporations") on January 5, 2021. The Clearing Corporations have made direct funds payout to Eligible Shareholders whose Equity Shares have been accepted under the Buyback. If any Eligible Shareholders' bank account details were not available or if the funds transfer instruction was rejected by Reserve Bank of India/relevant bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned Seller Members for onward transfer to such Eligible Shareholder holding Equity Shares in dematerialized form.
- 2.6. Demat Equity Shares accepted under the Buyback were transferred to the Company's demat escrow account on January 5, 2021. The unaccepted demat Equity Shares have been returned to the respective Eligible Shareholders by Clearing Corporations on January 5,
- 2021. 2.7. The extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares accepted under the Buyback, all of which are in dematerialized form, is currently under process and shall be completed on or before January 12, 2021.
- 2.8. The Company, and its respective directors, accept responsibility for the obligations of the

Company laid down under the Buyback Regulations. 3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Sr. No.	Particulars	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post Buyback (1)	
		No. of Shares	Amount (₹)	No. of Shares	Amount (₹)
1	Authorized	460,05,00,000	460,05,00,000	460,05,00,000	460,05,00,000
	Share	Equity Shares		Equity Shares	
	Capital	of₹1 each		of₹1 each	
		105,02,50,000 Redeemable	105,02,50,000	105,02,50,000 Redeemable	105,02,50,000
		Preference		Preference	
		Shares of ₹1		Shares of ₹1	
		each		each	
		Total	565,07,50,000	Total	565,07,50,00
2	Issued,	375,23,84,706		369,90,51,373	
	Subscribed	Equity Shares	375,23,84,706	Equity Shares	369,90,51,373
	and Paid	of₹1 each		of ₹1 each	
	up Share				
	Capital				

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

3.2. Details of Eligible Shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares accepted under Buyback	Equity Shares accepted as a % of total Equity Shares bought Back	Equity Shares accepted as a % of total Post Buyback Share Capital ⁽¹⁾
1	Tata Sons Private Limited	3,33,25,118	62.48%	0.90%
2	Life Insurance Corporation of India	16,69,456	3.13%	0.05%
3	RBC Emerging Markets Equity Fund	7,69,221	1.44%	0.02%
4	Axis Mutual Fund Trustee Limited A/C Axis Mutual Fund A/C Axis Long term Equity	6,78,191	1.27%	0.02%
	Total	364,41,986	68.33%	0.99%

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

	Pre Buyback (As on the Record Date)		Post Buyback (1)	
Category of Shareholder	Number of Shares	% to the existing Equity Share capital	Number of Shares	% to post Buyback Equity Share capital
Promoters/ Promoter Companies	270,35,42,000	72.05	267,02,04,298	72.19
Foreign Investors (including Non Resident Indians / FIIs / FPIs / Foreign Nationals / OCBs)	59,98,60,319	15.99		
Financial Institutions / Banks / NBFCs and Mutual Funds / Insurance Companies	29,39,12,165	7.83	102,88,47,075	27.81
Others (Public, Bodies Corporate, Clearing Members, Trust, and HUF)	15,50,70,222	4.13		
Total	375,23,84,706	100.00	369,90,51,373	100.00

(1) Subject to extinguishment of 5,33,33,333 Equity Shares

4. MANAGER TO THE BUYBACK

A JM FINANCIAL **JM Financial Limited**

7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi,

Mumbai – 400025, Maharashtra, India Tel.: +91 22 6630 3030

Fax: +91 22 6630 3330 Contact Person: Ms. Prachee Dhuri

Email: tcs.buyback2020@jmfl.com Website: www.jmfl.com

SEBI Regn. No.: INM000010361 Corporate Identity Number: L67120MH1986PLC038784

5. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement or any other information advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Tata Consultancy Services Limited

	400			
	Sd/-	Sd/-	Sd/-	
Ĭ	Rajesh Gopinathan	N. Ganapathy Subramaniam	Rajendra Moholkar	
	CEO & Managing Director	COO& Executive Director	Company Secretary	
	(Director Identification	(Director Identification	(Membership Number:	
	Number (DIN): 06365813)	Number (DIN): 07006215)	A8644)	

Date: January 5, 2021 Place: Mumbai